



महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात

वर्ष ९, अंक २९]

मंगळवार, डिसेंबर १२, २०२३/अग्रहायण २१, शके १९४५ [पृष्ठे ५९, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. LI OF 2023.

A BILL

THE AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF
THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR
ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2024.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५१ सन् २०२३।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को
समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की
अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के उसमें के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित
निधि में से वित्तीय
वर्ष २०२३-२०२४
के लिये,
५ खरब,
५५ अरब,
२० करोड़,
७६ लाख,
८५ हजार
रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर पाँच खरब, पचपन अरब, बीस करोड़, छिहत्तर लाख, पचासी हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक		कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
(१)	(२)	(३)		विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
क—राजस्व लेखे पर व्यय सामान्य प्रशासन विभाग						
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक।	१,९४,७७,०००	१,९४,७७,०००
		२०१३, मंत्री परिषद।				
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	..	८२,७५,००,०००	..	८२,७५,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	४५,०९,३९,०००	..	४५,०९,३९,०००
		कुल-सामान्य प्रशासन विभाग	..	१,२७,८४,३९,०००	१,९४,७७,०००	१,२९,७९,१६,०००
गृह विभाग						
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवा।	..	२,४६,९३,३७,०००	..	२,४६,९३,३७,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	९,९५,२५,०००	..	९,९५,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, आंतराज्यीय जल परिवर्तन।	..	१०,०८,०४,२१,०००	११,०८,०४,२१,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	२,१२,६०,०००	२,१२,६०,०००
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	..	११,०९,५५,०००	११,०९,५५,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण और जल विकास।	२७११, बाढ़ नियंत्रण और जल विकास।	..	२८,००,००,०००	२८,००,००,०००
कुल—गृह विभाग।			..	१३,९४,१४,९८,०००	१४,९४,१४,९८,०००
राजस्व तथा वन विभाग					
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	६,३०,२८,६५,०००	६,३०,२८,६५,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१,३८,७३,०००	१,३८,७३,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	१,००,००,००,०००	१,००,००,००,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र।	..	४२,६१,००,०००	४२,६१,००,०००
कुल—राजस्व तथा वन विभाग।			..	७,७४,२८,३८,०००	७,७४,२८,३८,०००

डी-३	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग	२४०१, कृषि कर्म।	..	५२,३२,०८,९४,०००	..	५२,३२,०८,९४,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..			
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	८१,९९,४९,०००	..	८१,९९,४९,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	३७,५८,०९,०००	..	३७,५८,०९,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	.. २४०५, मत्स्य उद्योग।	..	५३,५९,६६,४४,०००	..	५३,५९,६६,४४,०००
कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।						
विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग						
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२९,३७,४६,४०,०००	..	२९,३७,४६,४०,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	..	५,३९,३०,६४,०००	..	५,३९,३०,६४,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	..	३४,७६,७७,०४,०००	..	३४,७६,७७,०४,०००
नगरविकास विभाग						
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	११,२६,५४,४०,०००	..	११,२६,५४,४०,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
		२२१७, नगरविकास।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।	..	२२,५०,०००	..	२२,५०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,३८,३५,००,०००	२,३८,३५,००,०००
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर संग्रहण। २०४०, विक्रय, कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	४७,७७,०००	४७,७७,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	१५,६७,०४,०००	१५,६७,०४,०००
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	६४,९५,७०,०००	६४,९५,७०,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२,६१,१३,०००	२,६१,१३,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	२,१४,००,००,०००	२,१४,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	१,२८,७८,७४,०००	१,२८,७८,७४,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	४,१०,३५,५७,०००	४,१०,३५,५७,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

कुल—वित्त विभाग।

कुल—नगरविकास विभाग।

जलस्रोत विभाग

[illegible]

विधि तथा न्याय विभाग

जै-१	न्याय प्रशासन।	..	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	८१,१२,१०,०००	२,९५,६२,२२,०००	३,७६,७४,३२,०००
जै-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	..	२०१२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१६,६७,०००	..	१६,६७,०००
	कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	८१,२८,७७,०००	२,९५,६२,२२,०००	३,७६,९०,९१,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम और खनन विभाग

के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान।	७,२४,४३,०००	७,२४,४३,०००
		२०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
के-४	श्रम, नियोजन कौशल तथा विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	१५,४०,६०,०००	१५,४०,६०,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत।	१८,०१,८०,००,०००	१८,०१,८०,००,०००
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग ।	३०,०५,००,००,०००	३०,०५,००,००,०००
के-८	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग । ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	४,९७,००,०००	४,९७,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम और खनन विभाग ।	४८,३४,४२,०३,०००	४८,३४,४२,०३,०००
ग्रामविकास विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन ।	२०५३, जिला प्रशासन ।	५,००,६०,००,०००	५,००,६०,००,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सड़क तथा पुल ।	३१,२९,०९,०४,०००	३१,२९,०९,०४,०००
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	३४,५१,०००	३४,५१,०००
एल-५	स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन ।	३६०४, स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन । कुल—ग्रामविकास विभाग ।	२,०५,००,००,०००	२,०५,००,००,०००
			३६,३०,०३,५५,०००	३६,३५,०३,५५,०००

एचबी-१७२४-२
भाग सात-५८-२

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भंडारकरण और गोदाम।	..	९,९७,०५,५८,०००	..	९,९७,०५,५८,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	..	२,६६,७६,०००	..	२,६६,७६,०००
	३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				

कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

..	९,९९,७२,३४,०००	..	९,९९,७२,३४,०००
----	----------------	----	----------------

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	३४,९५,३७,०१७,०००	३४,९५,३७,०१७,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२११, परिवार कल्याण।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१६, आवास।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			

अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२४०१, कृषि कर्म।

२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण

२४०३, पशुपालन।

२४०५, मत्स्योद्योग।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।

२५०५, ग्राम नियोजन।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नविकरणीय उर्जा।

२८५२, उद्योग।

कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।

..	३४,९५,३७,०१७,०००	..	३४,९५,३७,०१७,०००
----	------------------	----	------------------

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
योजना विभाग				
ओ-१	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२,००,००,००,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	..	२,००,००,०२,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	४०,००,०१,०००
ओ-१४	जिला योजना-मुंबई शहर।	२०४१, वाहनोपर कर।	..	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	..	१,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,००,००,०३,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	४०,००,०१,०००
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	..	१,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	१,००,००,०२,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	४०,००,०१,०००
		२२१६, आवास।	..	१,०००
		२२१७, नगरविकास।	..	१,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	१,००,००,०२,०००
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।	..	४०,००,०१,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,०००
		२२३६, पोषण।	..	१,०००
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	..	१,००,००,०२,०००
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	..	१,००,००,०२,०००
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	..	४०,००,०१,०००
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	१,००,००,०२,०००
		३४५२, पर्यटन	..	१,०००
ओ-१६	जिल्हा योजना-मुंबई उपनगर।	२०४१, वाहनोपर कर।	..	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	..	१,००,००,०२,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	४०,००,०१,०००

२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१६,	आवास।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५६,	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
३४३५,	पारिस्थितीकी तथा पर्यावरण।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन			
२०४१,	वाहनोपर कर।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			

ओ-१८ जिला योजना-टाणे।

१,०००

१,०००

..

..

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य			
	पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५१,	पत्तन तथा दीपगृह।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	..	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
ओ-२०	जिल्हा योजना-रायगड।			

२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५१,	पत्तन तथा दीपगृह।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३०५६,	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
ओ-२२	जिला योजना-रत्नागिरी।			

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५१,	पत्तन तथा दीपगृह।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३०५६,	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।			

ओ-२४	जिला योजना-सिंधुगर्ग।	१,०००	१,०००	१,०००
२०४१,	वाहनो पर कर।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकरिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५१,	पत्तन तथा दीपगृह।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३०५६,	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वयन।			

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-२६	जिला योजना-पुणे।			
२०४१,	वाहनों पर कर।		रुपये	रुपये
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
			१,०००	१,०००

३४५२,	पर्यटन				
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००	
२०५३,	जिला प्रशासन।				
२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७,	नगर विकास।				
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६,	पोषण।				
२४०३,	पशुपालन।				
२४०५,	मत्स्य उद्योग।				
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
२४२५,	सहकारिता।				
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२,	लघु सिंचाई।				
२८०१,	विद्युत।				
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
३०५४,	सड़क तथा पुल।				
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
३४५२,	पर्यटन			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय			
२०४१,	वाहनों पर कर	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन			
२२०२,	सामान्य शिक्षा			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ			
२२०५,	कला तथा संस्कृति			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता			
२२१७,	नगर विकास			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
२२३६,	पोषण			
२४०३,	पशुपालन			
२४०५,	मत्स्य उद्योग			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन			
२४२५,	सहकारिता			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम			
२७०२,	लघु सिंचाई			
२८०१,	विद्युत			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
३०५४,	सड़क तथा पुल			

३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			

ओ-३२ जिला योजना-सोलापुर।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००		१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,			
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			

२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा अन्य जीवन।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			

ओ-३६ जिला योजना-नासिक।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		३०५४, सड़क तथा पुल।		रुपये
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।		
ओ-३८	जिल्हा योजना-धुलिया।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों		
		का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।		
		२४२५, सहकरिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		

२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०६,	वन तथा अन्य जीवन।			
२४२५,	सहकरिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			

ओ-४० जिला योजना-जलगाँव।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।		
ओ-४२	जिला योजना-अहमदनगर।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों		
		का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग		
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
३०५४, सड़क तथा पुल।				
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२, पर्यटन।				
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				
२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३, जिला प्रशासन।				
२२०२, सामान्य शिक्षा।				
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२१७, नगर विकास।				
२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०५, मत्स्य उद्योग।				
२४२५, सहकारिता।				
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२, लघु सिंचाई।				
२८०१, विद्युत।				
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
३०५४, सड़क तथा पुल।				
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२, पर्यटन।				
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।				

ओ-४४ जिला योजना-नंदुरबार।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-४६	जिला योजना-छत्रपति संभाजी नगर।		रुपये	रुपये
			१,०००	१,०००
२०४१,	वाहनों पर कर।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	विकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग			
२४०६,	वन तथा अन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			

१,०००

..

१,०००

..

ओ-४८ जिला योजना-जालना।

- ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।
 २०४१, वाहनों पर कर।
 २०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा अन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।		
ओ-५०	जिला योजना-परभणी।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		

२७०२, लघु सिंचाई।			
२८०१, विद्युत।			
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४, सड़क तथा पुल।			
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२, पर्यटन।			
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	..	१,०००
२०५३, जिला प्रशासन।			
२२०२, सामान्य शिक्षा।			
२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५, कला तथा संस्कृति।			
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७, नगर विकास।			
२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६, पोषण।			
२४०३, पशुपालन।			
२४०५, मत्स्य उद्योग।			
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५, सहकारिता।			

ओ-५२ जिला योजना-नॉंदेड।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
		अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		लघु सिंचाई।		
		विद्युत।		
		नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
		सड़क तथा पुल।		
		सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		पर्यटन।		
		स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वय।		
		वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		जिला प्रशासन।
		सामान्य शिक्षा।		
		तकनीकी शिक्षा।		
		क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		कला तथा संस्कृति।		
		चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		नगर विकास।		
		सूचना तथा प्रचार।		
		श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		पौषण।		
		पशुपालन।		
		मत्स्य उद्योग		
		वन तथा अन्य जीवन।		
ओ-५४	जिला योजना-बीड।		१,०००	१,०००

१,०००

१,०००

ओ-५६ जिला योजना-लातूर।

- २४२५, सहकारिता।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।
 २०४१, वाहनों पर कर।
 २०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, विकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों
 का कल्याण।
 २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा अन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वय।		
		२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा अन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
ओ-५८	जिला योजना-धाराशिव।			

२८०१, विद्युत ।	..	१,०००	१,०००
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।			
३०५४, सड़क तथा पुल ।			
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।			
३४५२, पर्यटन ।			
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वयन ।			
२०४१, वाहनो पर कर ।			
२०५३, जिला प्रशासन ।			
२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
२२१७, नगर विकास ।			
२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,			
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का			
कल्याण ।			
२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
२२३६, पोषण ।			
२४०३, पशुपालन ।			
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
२४०५, मत्स्य उद्योग			
२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
२४२५, सहकारिता ।			
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
२७०२, लघु सिंचाई ।			
२८०१, विद्युत ।			

ओ-६० जिला योजना-हिंगोली ।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वयन।		
ओ-६२	जिला योजना-नागपुर।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का		
		कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग		

ओ-६४ जिला योजना-वर्धा।

- २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पूल।
 ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।
 २०४१, वाहनों पर कर।
 २०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।

१,०००

.

१,०००

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२४०५,	मत्स्य उद्योग			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पूल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।		१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।		.	.
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			

ओ-६६ जिला योजना-भंडारा।

२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
२२३६,	पोषण।		
२४०३,	पशुपालन।		
२४०५,	मत्स्य उद्योग		
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।		
२४२५,	सहकारिता।		
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
२७०२,	लघु सिंचाई।		
२८०१,	विद्युत।		
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
३०५४,	सड़क तथा पूल।		
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		
३४५२,	पर्यटन।		
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वयन।		
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।	.	.
२२०२,	सामान्य शिक्षा।		
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।		
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
ओ-६८	जिला योजना-चंद्रपुर।		

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२२०५,	कला तथा संस्कृति ।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
२२१७,	नगर विकास ।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
२२३६,	पोषण ।			
२४०३,	पशुपालन ।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास ।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।			
२४२५,	सहकारिता ।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
२७०२,	लघु सिंचाई ।			
२८०१,	विद्युत ।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।			
३०५४,	सड़क तथा पूल ।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।			
३४५२,	पर्यटन ।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वय ।			

ओ-७०	जिला योजना-गढचिरोली।	१,०००	१,०००	१,०००
२०४१,	वाहनॉ पर कर।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पूल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-७२	जिला योजना-गोंदिया।		१,०००	१,०००
२०४१,	वाहनों पर कर।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगरविकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			

३०५४, सड़क तथा पूल।				
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२, पर्यटन।				
२०४१, वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३, जिला प्रशासन।				
२२०२, सामान्य शिक्षा।				
२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७, नगरविकास।				
२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
२४०५, मत्स्य उद्योग।				
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
२४२५, सहकारिता।				
२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२, लघु सिंचाई।				

ओ-७४ जिला योजना-अमरावती।

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२८०१, विद्युत ।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पूल ।		
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५२, पर्यटन ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन ।		
ओ-७६	जिला योजना-अकोला ।	२०४१, वाहनों पर कर ।	१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन ।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
		२२१७, नगर विकास ।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का		
		कल्याण ।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		

२४०३,	पशुपालन ।				
२४०५,	मत्स्य उद्योग ।				
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।				
२४२५,	सहकारिता ।				
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
२७०२,	लघु सिंचाई ।				
२८०१,	विद्युत् ।				
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।				
३०५४,	सड़क तथा पूल ।				
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।				
३४५२,	पर्यटन ।				
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन ।				
२०४१,	वाहनों पर कर ।	१,०००	१,०००	१,०००	
२०५३,	जिला प्रशासन ।				
२२०२,	सामान्य शिक्षा ।				
२२०३,	तकनीकी शिक्षा ।				
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
२२०५,	कला तथा संस्कृति ।				
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
२२१७,	नगर विकास ।				
२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।				
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
ओ-७८	जिला योजना-यवतमाल ।				

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पूल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समन्वय।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
ओ-८०	जिला योजना-बुलढाणा।			

२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पूल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			
२०४१,	वाहनों पर कर।	१,०००	१,०००	१,०००
२०५३,	जिला प्रशासन।
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
ओ-८२	जिला योजना-वाशिम।			

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगर विकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पूल।			
३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			

१,०००

..

१,०००

..

ओ-८४ जिला योजना-पालघर।

- २०४१, वाहनों पर कर।
 २०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०१, कृषी कर्म।
 २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 ३०५१, पतन तथा दीपगृह।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		३०५४, सड़क तथा पूल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।	४,४०,००,४०,०००	४,४०,००,४१,०००
		कुल—योजना विभाग।	१,०००	१,०००
		आवास विभाग		
क्यू-३	आवास।	२२१६, आवास।	१८,९२,००,०००	१८,९२,००,०००
		२२१७, नगरविकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		कुल—आवास विभाग।	१८,९२,००,०००	१८,९२,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग		
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	१०,०१,२४,५९,०००	१०,०१,२४,५९,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२११, परिवार कल्याण।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	१०,०१,२४,५९,०००	१०,०१,२४,५९,०००
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	७५,००,०००	७५,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	७५,००,०००	७५,००,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग			
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	२२१०,
	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	२,०८,०३,५२,०००
	कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	..	२,०८,०३,५२,०००
जनजाति विकास विभाग			
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२०५३, जिला प्रशासन ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२०५९, लोक निर्माण कार्य ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२११, परिवार कल्याण ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२१६, आवास ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२१७, नगर विकास ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२२३६, पोषण ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४०१, कृषि कर्म ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४०३, पशुपालन ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४०५, मत्स्योद्योग ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४२५, सहकारिता ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२५०५, ग्राम नियोजन ।	..	१३,०१,७४,४५,०००
	२७०२, लघु सिंचाई ।	..	१३,०१,७४,४५,०००

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२८०१, विद्युत ।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग ।		
		२८५२, उद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३०५५, सड़क परिवहन ।		
		कुल — जनजाति विकास विभाग ।	१३,०१,७४,४५,०००	१३,०१,७४,४५,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग		
वी-२	सहकारिता ।	२०७०, अन्य प्रशासकिय सेवाएँ ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	११,७६,९६,४२,०००	११,७६,९६,४२,०००
		२४२५, सहकारिता ।		
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।		
		२८५२, उद्योग ।		
		३४५१, सचिवालय — आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५६, सिविल आपूर्ति ।		
		कुल — सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	११,७६,९६,४२,०००	११,७६,९६,४२,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग		
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	२,१०,६६,२०,०००	२,१०,६६,२०,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।	१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	२१,८४,१०,०००	२१,८४,१०,०००
		कुल — उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	२,४७,५०,३०,०००	२,४७,५०,३०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, २२३६,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। पोषण।	३,७४,२८,७५,०००	...	३,७४,२८,७५,०००
एक्स-२ सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	१,००,००,०००	...	१,००,००,०००
		कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	३,७५,२८,७५,०००	...	३,७५,२८,७५,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	३५,५५,१६,००,०००	...	३५,५५,१६,००,०००
		कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	३५,५५,१६,००,०००	...	३५,५५,१६,००,०००

कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग

जेड-क-१ ब्याज अदागिर्वाँ।	२२४९,	ब्याज अदागिर्वाँ।	...	६८,०८,६७,०००	६८,०८,६७,०००
जेड-क-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	९,११,९९,०००	...	९,११,९९,०००
	२२३०,	श्रम, तथा नियोजन।			
	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
	२४०६,	वन तथा वन्य जीवन			
		कुल— कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग।	९,११,९९,०००	६८,०८,६७,०००	७७,२०,६६,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल। २०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	७१,१५,००,०००	...	७१,१५,००,०००
	कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	७१,१५,००,०००	...	७१,१५,००,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	...	८४,२१,६५,०००
जेड घ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
जेड घ-४ पर्यटन।	३४५२,	पर्यटन।
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	८४,२१,६५,०००	८४,२१,६५,०००

अनुसूची — जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ड-१ अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	५,१०,००,००,०००	५,१०,००,००,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	..	५,१०,००,००,०००	५,१०,००,००,०००
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।				
जेड छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३३,५७,६१,७६,०००	३३,५७,६१,७६,०००
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।	..	३३,५७,६१,७६,०००	३३,५७,६१,७६,०००
मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।				
जेड ज-३ सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..	८,४५,८६,०००	८,४५,८६,०००
	२४०६, वन तथा वन्य जीव			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	..	८,४५,८६,०००	८,४५,८६,०००
	कुल— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	..	३,८८,२१,५९,४३,०००	३,९४,९२,२५,१०,०००

ख-पूँजीगत लेखेपर व्यय।
गृह विभाग।

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५,	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	..	१४,५८,३९,२६,०००	...	१४,५८,३९,२६,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
		५००२,	भारतीय रेल-वाणिज्य तरतूद पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
		५०५५,	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
			कुल— गृह विभाग।	..	१४,५८,३९,२६,०००	...	१४,५८,३९,२६,०००

राजस्व तथा वन विभाग।

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	..	१२,८४,०१,०००		१२,८४,०१,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
		६२४५,	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।	..			
			कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	१२,८४,०१,०००		१२,८४,०१,०००

नगरविकास विभाग।

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२१७,	नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय।	..	३६,५०,००,००,०००	...	३६,५०,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
			कुल—नगर विकास विभाग।	..	३६,५०,००,००,०००	...	३६,५०,००,००,०००

वित्त विभाग।

जी-८	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..	२,५०,००,००,०००	...	२,५०,००,००,०००
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	..			
		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	..	५०,००,००,०००	...	५०,००,००,०००
			कुल—वित्त विभाग।	..	३,००,००,००,०००	...	३,००,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
लोक निर्माण कार्य विभाग।				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, ४७११, ५०५४, ४०५९, ४२०२,	..	४३,५६,००,०५,०००
				४३,५६,००,०५,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, ४२१७, ४२२५,	..	७,२६,०२,१४,०००
				७,२६,०२,१४,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, ४२५०, ४२०२,	..	१,०००
				१,०००
जलस्रोत विभाग।				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, ४७००, ४७०१, ४७०२,	..	७,३३,४५,५०,०००
				७,३३,४५,५०,०००
				७,३३,४५,५०,०००

४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७,३३,४५,५०,०००	...	७,३३,४५,५०,०००
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३१,५५,७४,०००	...	३१,५५,७४,०००
विधि तथा न्याय विभाग।				
कुल—जलस्रोत विभाग।	..	३१,५५,७४,०००	...	३१,५५,७४,०००
उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग।				
४०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२०,००,००,०००	...	२०,००,००,०००
४८५१, ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५,००,००,०००	...	५,००,००,०००
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१९,२५,१४,०००	...	१९,२५,१४,०००
४८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	..			
६८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..			
६८७५, अन्य उद्योगों के लिए कर्ज।	..	४४,२५,१४,०००	...	४४,२५,१४,०००
ग्रामविकास विभाग।				
४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,८४,१४,८३,०००	...	१,८४,१४,८३,०००
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
६२१६, आवास के लिए कर्ज।	..	१,८४,१४,८३,०००	...	१,८४,१४,८३,०००
कुल—ग्रामविकास विभाग।				

विधि तथा न्याय विभाग।

जे-४ लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।

उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग।

के-१ आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।

के-१० उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।

के-११ ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।

एल-७ ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	३,०००	३,०००
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	३,०००	३,०००
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण के लिये कर्ज।		
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	३,०००	३,०००
योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	१,६०,००,००,०००	१,६०,००,००,०००
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
		५४५२, पर्यटन व पूंजीगत परिव्यय।
		कुल—योजना विभाग।	१,६०,००,००,०००	१,६०,००,००,०००
लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	अन्य ग्रामविकास पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	३,६४,९९,५५,०००	३,६४,९९,५५,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	३,६४,९९,५५,०००	३,६४,९९,५५,०००

एचबी-१७२४-८
भाग सात-५८-८

एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	...	२४,७३,२५,०३,०००	...	२४,७३,२५,०३,०००
कुल-लोकस्वास्थ्य विभाग।						
जनजाति विकास विभाग						
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	...	७,५६,४१,४५,०००	...	७,५६,४१,४५,०००
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।						
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।						
मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।						
वन तथा वन्यजिवन पर पूंजीगत परिव्यय।						
सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।						
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।						
लघू सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।						
सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।						
७,५६,४१,४५,०००						
कुल-जनजाति विकास विभाग।						
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग						
डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	...	४,६९,३८,००,०००	...	४,६९,३८,००,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।	७६१०, सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।	...	२०,००,००,०००	...	२०,००,००,०००
कुल-उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।						
४,८९,३८,००,०००						
४,८९,३८,००,०००						

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय				
जेड ग-३ अन्य सामाजिक सेवाओं पर पंजीगत परिव्यय।	४२१६,	आवास पर पंजीगत परिव्यय।	१,००,००,०००	१,००,००,०००
	७६१०,	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण आदि।
कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				
			१,००,००,०००	१,००,००,०००
अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ड-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पंजीगत परिव्यय।	१,१६,८१,००,०००	१,१६,८१,००,०००
		पर पंजीगत परिव्यय।
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	१,१६,८१,००,०००	१,१६,८१,००,०००
अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग				
जेड छ-४ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पंजीगत परिव्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पंजीगत परिव्यय।	२०,००,००,०००	२०,००,००,०००
		कुल—अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग।	२०,००,००,०००	२०,००,००,०००
मृदा और जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-५ सिंचाई पर पंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पंजीगत व्यय।	१,५०,००,००,०००	१,५०,००,००,०००
	४७०२,	लघु सिंचाई पर पंजीगत व्यय।
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	१,५०,००,००,०००	१,५०,००,००,०००
		कुल—ख-पंजीगत लेखे पर परिव्यय।	१,६०,१५,६७,७३,०००	१,६०,२८,५१,७५,०००
		कुल योग।	५,४८,३७,२७,१६,०००	५,५५,२०,७६,८५,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२३-२०२४ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :-

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	३,९४,९२,२५,१०,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. .	१,६०,२८,५१,७५,०००
कुल	. .	५,५५,२०,७६,८५,०००

नागपूर,
दिनांकित १२ दिसम्बर २०२३।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।